

### संपादकीय

## हंगामी सत्र

यह विडंबना ही है कि संसद के मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र भी समय से पहले खत्म हो गया। सत्र शुरू होते ही मानसून सत्र में हंगामे के लिये राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारह सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने के बाद जो टकराव उत्पन्न हुआ, वह आखिर तब तक चलता रहा। सत्र के आखिरी दिनों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन के निलंबन के बाद विवाद ज्यादा ही तुल पकड़ गया। लखीमपुर खीरीकांड में गृह राज्यमंत्री को हटायें जाने के मुद्दे पर विपक्ष खासा आक्रामक रहा। अंततः इस विवाद के बीच सत्र समय से पहले ही समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। इस हंगामेदार सत्र में लोकसभा के लिये निर्धारित समय में से 24 दिनों में 18 बैठकों के माध्यम से 83 घंटे और 12 मिनट का काम हुआ, जबकि 18 घंटे व 48 मिनट का नुकसान हुआ। वहीं राज्यसभा के लिये निर्धारित 95 घंटे और छह मिनट की निर्धारित बैठक के समय में सदन में केवल 45 घंटे और 34 मिनट में कार्य निर्वहन किया गया। जहां यह सत्र तृणामी और असामान्य रूप से टकराव वाला था, वहीं सरकार ने इसे अपनी सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने व्यवधान डालकर बिना बहस के कृषि कानूनों को निरस्त तथा विधेयकों को पारित करने का अलोकतांत्रिक काम किया। पहले ही दिन बारह सांसदों के निलंबन को वे सरकार की रणनीति का हिस्सा बताते रहे। यह विडंबना ही है कि विश्वास बहाली व टकराव टालने की गंभीर कोशिश होती नजर नहीं आई। वहीं विपक्ष को सदन के बहिष्कार के बजाय तीखे प्रश्नों व आपत्तियों के जरिये गंभीर विमर्श में भाग लेना चाहिए। देश के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को भी गंभीर तैयारी करके सदन में आना चाहिए ताकि विधेयकों के गुण-दोषों पर गहन मंथन हो सके। वहीं संसद में सांसदों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठाये जाते रहे हैं।

बहरहाल, चुनाव सुधार विधेयक के जल्दबाजी में पारित होने से इस महत्वपूर्ण विधेयक से जुड़े कई सवाल अभी बरकरार हैं। नागरिकों की निजता व डेटा सुरक्षा से जुड़े कई सवालों पर विमर्श की मांग विपक्ष लगातार करता रहा। वहीं युवतियों की शादी की उम्र बढ़ाने के विधेयक पर कई सवाल विभिन्न राजनीतिक दलों व वर्गों द्वारा उठाये जा रहे थे। संसद की स्थायी समिति को सौंपने के चलते अभी इस विधेयक पर विमर्श की गुंजाइश बची है। वहीं लखीमपुर खीरीकांड में गिरफ्तार आशीष मिश्रा के खिलाफ लगी धाराओं को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद गंभीर धाराओं में बदलने के बाद विपक्ष लगातार गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को हटायें जाने की मांग करता रहा। लेकिन सत्तापक्ष ने मुद्दे को अनसुना कर दिया। बहरहाल, संसद के विभिन्न सत्रों में हंगामे, निलंबन, सत्र बहिष्कार के चलते कामकाज ठप्प होने को भारतीय लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत कतई नहीं कहा जा सकता। देश के करदाताओं की मेहनत के पैसे का सत्र के विधिवत न चलने से व्यर्थ जाना निस्संदेह चिंता का विषय है। यह भी विडंबना है कि शीतकालीन व मानसून सत्र के दौरान उठे विवाद को खत्म करने की गंभीर पहल होती नजर नहीं आई। पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था बनाये रखने की अपील को विपक्षी नेताओं ने अनसुना किया। बार-बार के हंगामे व व्यवधान के चलते राज्यसभा में सिर्फ 48 फीसदी काम होना हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। बेहतर होता कि इस सत्र के दौरान पारित 11 विधेयकों पर गंभीर विमर्श होता ताकि वे देशहित के व्यापक लक्ष्यों को पूरा कर पाते। लेकिन विडंबना है कि धीरे-गंभीर पहल के बिना शीतकालीन सत्र समय से पहले समाप्त हो गया। बहरहाल, विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि रूलबुक फेंकना, मेजों पर चढ़ना, कागज फाड़कर फेंकना व सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्का क्या संसदीय परंपरा का हिस्सा है? देश की युवा पीढ़ी अपने माननीयों के इस व्यवहार से क्या सीख लेगी? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है लेकिन यह मर्यादित हो। वहीं सत्तापक्ष को सोचना चाहिए कि बहुमत के दबाव में अल्पमत व असहमति की अनसुनी न की जाए। राष्ट्रीय मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष की सोच सकारात्मक होनी चाहिए।

## सैंचुरियन में केएल राहुल का कमाल, एक झटके में वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री और वीनू मांकड़ को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम दर्ज है। गावस्कर के बाद अब केएल राहुल दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल 122 रन बनाकर नॉटआउट लौटे और इस पारी के साथ उन्होंने एक झटके में रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और वीनू मांकड़ को पीछे छोड़ दिया।



यह राहुल का चौथा टेस्ट शतक है। सहवाग, शास्त्री और मांकड़ के खाते में तीन-तीन टेस्ट शतक दर्ज हैं। गावस्कर इस मामले में आठ शतकों के साथ टॉप पर हैं। गौतम गंभीर, मुरली विजय, राहुल द्रविड़ और विजय मर्चेन्ट

मयंक 60 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा गोल्डन डक का शिकार बने। विराट के साथ राहुल ने मिलकर टीम का स्कोर 199 रनों तक पहुंचाया। विराट अच्छी शुरुआत के बाद 35 रन बनाकर आउट हुए। इन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने तीन विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। राहुल अभी तक 248 गेंदों पर 122 रन बना चुके हैं। जबकि उनका साथ अजिंक्य रहाणे दे रहे हैं, जो 40 रन बनाकर क्राईज पर मौजूद हैं।

### मयंक अग्रवाल के आउट होने पर मत्वा बवाल, फैंस बोले- कैसे लिया गया यह फैसला

नई दिल्ली। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैंचुरियन टेस्ट के पहले दिन 60 रनों की शानदार पारी खेली, उनकी यह पारी और भी लंबी हो सकती थी अगर वह जिस तरह से आउट दिए गए, वह नहीं हुआ होता। मयंक के आउट होने के फैसले को लेकर फैंस में काफी गुस्सा है। मयंक 123 गेंद पर 60 रन बनाकर लुंगी एनगिडी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, ऑन-फिल्ड अपायर ने उन्हें नॉटआउट दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने रिव्यू लिया। रिफ्ले में दिखाया गया कि गेंद लेग स्टंप पर लगकर

निकलती और इस तरह से मयंक को आउट दिया गया। टिवटर पर इसको लेकर हंगामा सा मच गया। मयंक खुद इस फैसले से बिल्कुल खुश नजर नहीं आए। इस तरह से भारत ने 117 रनों पर अपना पहला विकेट गंवाया। राहुल और मयंक ने मिलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी थी। फैंस का मानना है कि इस डीआरएस पर अपायर्स कॉल फेसला आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार मैच का पहला विकेट नसीब हुआ। मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया।

## रजिस्ट्रेशन : यूपी में 500 रुपया महीना मुफ्त पाने की लगी होड़, 4 करोड़ से अधिक बने ई-श्रम कार्ड

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 500-500 रुपये उनके बैंक खातों में भेजेगी। इस घोषणा के बाद यूपी में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या में उछाल आया है। 17 दिसंबर तक यूपी के 25691084 श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और आज यानी 27 दिसंबर को सुबह 10.35 बजे तक इनकी संख्या



41550655 हो गई। घोषणा से पहले और कुछ दिन बाद तक ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले यूपी के जिलों में कुशीनगर अत्यंत था, लेकिन अब यह खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच

गया है। अब सीतापुर ई-श्रम कार्ड बनवाने वाले लोगों की लिस्ट में प्रदेश में नंबर वन है। यहां अब तक 1059656 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दूसरे स्थान पर 1012216 श्रम कार्ड धारकों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर जौनपुर है। पूरे देश में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक पोziशन पर है। दूसरे पर पश्चिम बंगाल है, जहां 23260580 श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर करा चुके हैं। तीसरे नंबर पर बिहार है। सबसे कम 285 रजिस्ट्रेशन लक्ष्य द्वीप में हुआ है। वहीं देश में अब तक 14.82 करोड़ से अधिक लोग ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें 52.70 फीसद महिलाएं और 47.30 फीसद पुरुष हैं। देशभर में रजिस्ट्रेशन के मामले में युवा श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। कुल रजिस्ट्रेशन का 61.05 फीसद श्रमिक 18 से 40 आयु वर्ग के हैं और सबसे कम 16-18 आयु वर्ग के किशोर हैं, जिनका प्रतिशत केवल 4.10 फीसद है।

### बेटी राशा खुद चुनेंगी अपना करियर : रवीना टंडन

रवीना टंडन को बॉलीवुड में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने ग्लैमर और अंदाज से अपनी खुद की अलग छवि बनाई है। शादी करने के बाद रवीना की सक्रियता फिल्मों में कम हो गई। रवीना के कुल चार बच्चे हैं और फैंस को इस बात का बेसुक्ती से इंतजार है कि उनके बच्चे कब बॉलीवुड में कदम रखेंगे। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सभी बेटी राशा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अहम बात कही है। रवीना ने कहा कि उनकी 16 वर्षीया बेटी राशा बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी या नहीं, यह उनका खुद का



फैसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि करियर चुनने के लिए वह राशा को पूरी आजादी देती हैं। रवीना ने बताया, अपने करियर के बारे में फैसला करना पूरी तरह से उनका निर्णय होगा। मैंने हमेशा उन्हें आजादी दी है और अपने बच्चों को आजादी दूंगी। रवीना ने कहा, मेरी पहली बेटियों के साथ-साथ मेरी बड़ी

बेटी राशा और बेटे रणबीर वर्धन को अपना करियर चुनने के लिए पूरी आजादी है। बता दें कि कुल चार बच्चों में राशा और रणबीर ही रवीना के अपने बच्चे हैं। उन्होंने अपनी शादी से पहले 21 साल की उम्र में पूजा और छाया दोनों अन्य बेटियों को गोद लिया था। ये दोनों रवीना के कजिन की बेटियां हैं, जिनका निधन हो चुका है। 2004 में रवीना ने बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी की थी। इसके बाद राशा का जन्म 2005 में हुआ, जबकि बेटे रणबीर वर्धन 2008 में पैदा हुए थे।

### दिव्या दत्ता की फिल्म माँ की शूटिंग हुई पूरी

बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने इसी साल आगस्त महीने में अपनी फिल्म माँ की अनाउंसमेंट की थी, और अब उन्होंने फिल्म को लेकर जानकारी दी है कि इसकी शूटिंग पूरी कर ली गई है। दिव्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के रैपअप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही कैप्शन लिखती हैं, और यह माँ का रैपअप हुआ। बहुत ही शानदार जर्नी रही। हमेशा ध्यान देने के लिए गिप्पी ग्रेवाल आपका शुक्रिया। साथ ही हमारे होनहार डायरेक्टर बलजीत सिंह और पूरी टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।



बता दें कि आगस्त महीने में फिल्म की अनाउंसमेंट करने के साथ ही दिव्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फुल्ट पोस्टर भी रिलीज किया था। माँ फिल्म को बलजीत सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी राणा रणबीर ने लिखी है। और इसे गिप्पी ग्रेवाल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म अगले साल मर्दर्स डे यानी कि 6 मई को बॉलिवुड रिलीज होगी।

### काजू पनीर की सब्जी

**सामग्री :**  
पनीर के टुकड़े- 15, काजू- 3 बड़े चम्मच, मक्खन- 1 छोटा चम्मच, तेज पत्ता- 1, लौंग- 3, हरी इलायची- 2, जीरा- 1 छोटा चम्मच, प्याज़- 1 बारीक कटा हुआ, अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 छोटा चम्मच, हल्दी- 1/2 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला- 1/4 छोटा चम्मच, नमक- 1 छोटा चम्मच, टमाटर घ्यूरी- 1 1/2 कप (लागभग 3 लाल टमाटर की), पिसा हुए काजू- 2 बड़े चम्मच, मलाई या क्रीम- 2 बड़े चम्मच, पानी- 1/4 कप, कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच कूटी हुई, हरा धनिया- 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ, तेल- 2 बड़े चम्मच।



बाद इसमें काजू गोल्डेन ब्राउन होने तक तल लें। अब पैन में घी, तेल या मक्खन डालें। उसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची का तड़का लगाएं। फिर प्याज़ और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। हल्का भूरा हो जाने के बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डालेंगे। मसाले हल्का भूत जाएं तब डालेंगे टमाटर घ्यूरी। और ढक्कन लगाकर 10-15 मिनट या तेल छोड़ने तक पकाएं। फिर मिलाएंगे इसमें काजू का पेस्ट और इसे भी कुछ देर तक पकाएंगे। आवश्यकतानुसार पानी मिलाएंगे। फिर फाईड पनीर के टुकड़े और काजू मिलाएंगे। धीमी आंच पर ढक्कर तीन मिनट तक पकाएं। ऊपर से कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर मिला लें। गर्मा-गर्मा पनीर मसाला रोटी या नान के साथ परोसें।

### शब्द सामर्थ्य- 302

बाएँ से दाएँ 1. याद, स्मरण 3. अनि, आग, पवित्र करने वाला 6. गी जाति का नर 8. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 10. मुस्कुराहट, तबस्सुम 11. खारा, नमक के स्वाद जैसा 14. मुख्यांग, निचोड़ 16. पिंडली व एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हड्डी, गुल्फ 18. अद्भुत, विचित्र 21. सम्राट, बादशाह, नरेश 22. कृति, निर्माण करना, बनाना 23. चढ़ी थाली 24. समूह, दल 26. एहसानमंद, कृतज्ञ 27. ध्वनि, सदा 28. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर। <b>ऊपर से नीचे</b> 2. अपमान, अनादर, अवज्ञा 3. जल, नीर, अम्ल 4. वाणी, वादा, कथन 4. कर्म शब्द का अपभ्रंश, भाग्य 7. लकड़ी का घूमने वाला एक गोल खिलौना, बिजली का बल्ब 9. लोग, प्रजा 10. यात्री, राही, पथिक 12. कोड़ा 13. चोचला, अदा 15. दंड 17. अवैध, अनुचित 18. जो आधिकारिक न हो, जो अधिकार प्राप्त न हो 19. जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, सत्यपरक, वाजिब 20. ताकत, शक्ति 24. प्रश्न, समस्या 25. घटना, घटना का वर्णन 26. एक प्रसिद्ध पक्षी जो रात में विचरण करता है, लक्ष्मीजी की सवारी 27. पानी, चमक।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**शब्द सामर्थ्य क्रमांक 301 का हल**

टे	ढ़ा	मे	ढ़ा	म	हा	र	त
क	ह					ज	न
जा	न	की	क	म	नी	य	
	त	म	क	ना			
म		त	ह	त		दा	ब
सी	मा		ला	स	न	द	
हा	थ	म	ल	ना	वा		
	द		घा	ल	मे	ल	
ब	द	ह	वा	स		न	

### सू-तकू- 302

9	8		1	7			
4	6		7	5			
	3		6	8		9	
		3		1		6	
5		6		9			
		9		5		3	
3		7		9			1
	5				3	9	
1	4			8		7	

**नियम**  
1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें उक्तों का एक खंड बना है।  
2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।  
3. बाएँ से दाएँ और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कालार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

**सू-दोकू क्र.301 का हल**

7	5	6	4	1	2	8	3	9
3	4	8	6	7	9	2	1	5
1	2	9	5	3	8	7	4	6
2	8	1	9	5	6	4	7	3
6	9	7	2	4	3	5	8	1
5	3	4	7	8	1	9	6	2
8	7	2	1	6	5	3	9	4
4	6	5	3	9	7	1	2	8
9	1	3	8	2	4	6	5	7

### एशेज सीरीज पर पड़ा कोरोना का साया

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को खेल की शुरुआत में आधा घंटे की देरी हुई क्योंकि इंग्लैंड खेमे में कोरोना संबंधित मामले की आशंका थी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को खेलने की मंजूरी मिल गई है और अब सभी मैदान पर ही है। खेल ऑस्ट्रेलियाई समय मुताबिक सुबह 10.30 पर शुरू होना था। इंग्लैंड के पहली पारी के 185 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 61 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट ने टीवी क्रिया था, इंग्लैंड टीम और मैनेजमेंट इस समय टीम होटल में आरएफटी कोरोना

जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि टीम की फैमिली के ग्रुप में एक पॉजिटिव मामला आया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में एक बयान में कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बताया गया है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सहयोगी स्टाफ के दो सदस्य और उनकी फैमिली में से दो सदस्य कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें आगे कहा गया, वे आइसोलेशन में हैं। इसके बाद साइडलाइनों और सहयोगी स्टाफ का रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराया गया और सब नेगेटिव आए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भी पीसीआर टेस्ट कराया गया। दोनों टीमों खेलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतेगी।

### आज का राशिफल

**वृश्चिक** क्षणिक गुस्सा विवाद की वजह बन सकता है। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है, जो आपसे उधार मांगते हैं।  
**मिथुन** लंबे समय से अटके सुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है।  
**मिथुन** असुरक्षा/ दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें।  
**कर्क** शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें।  
**सिंह** जिदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाएं। अपने हालात की शिकायत करने और उसे लेकर दुःखी होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला।  
**कन्या** दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा।  
**तुला** आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खाली तारीफ कर सकते हैं। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है।  
**वृश्चिक** रक्त चाप के मरीजों को खास खयाल रखने और दवा-दारू करने की जरूरत है। अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं।  
**मिथुन** आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है, जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं।  
**कर्क** आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है, जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं।  
**वृश्चिक** आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। संभव है आज आप अपने प्रिय को टॉफी और कॉकलेट वगैरह दें।  
**मिथुन** बहुत ज्यादा तनाव और चिंता करने की आदत सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा।